



01 अप्रैल 2024

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- 2024 की अप्रैल-सितंबर अवधि के लिए अपनी वैश्विक भविष्यवाणी में, एशियाई-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) जलवायु केंद्र ने दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो 1 जून को शुरू होता है, के दौरान भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया है।
- चालू वर्ष में, सरकार ने बफर आवश्यकता के लिए एनसीसीएफ और एनएएफडी की किसानों से सीधे 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है क्योंकि रबी-2024 की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है।
- भारतीय कपास निगम ने चालू 2023-24 सीजन में अब तक 32.81 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है।
- वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन फरवरी 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़कर 148.8 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 143.6 मिलियन टन था।
- एक सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि भारत में सोने का आयात फरवरी में 110

मीट्रिक टन से मार्च में घटकर 10 से 11 मीट्रिक टन रह जाने की संभावना है, जो कोविड महामारी के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड-उच्च कीमतों की वजह से मांग प्रभावित होने के बाद बैंकों ने आयात में कटौती की है।

- वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि जापान का रिफाईंड तांबे का निर्यात फरवरी में एक साल पहले की तुलना में 46 प्रतिशत गिरकर 28,989 टन हो गया, जो साल-दर-साल गिरावट का लगातार पांचवां महीना है।
- आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र की मुख्य अनाज प्रबंधन एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास चालू महीने की शुरुआत में लगभग 9.4 मिलियन टन अनाज था, जबकि पिछले साल मार्च में लगभग 11.5 मिलियन टन था।
- 2023-2024 सीजन की पहली छमाही में यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का निर्यात एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 18.5% बढ़ गया।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.03.24	27.03.24	बदलाव (%)
गुड़	1448.00	1471.00	1.59%
स्टील	41640.00	41790.00	0.36%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.03.24	27.03.24	बदलाव (%)
कॉटन	59560.00	60280.00	1.21%
लेड	174.20	176.05	1.06%
सोना मिनी	65686.00	66295.00	0.93%
सोना गिनी	53096.00	53381.00	0.54%
कच्चा तेल	6746.00	6776.00	0.44%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.03.24	27.03.24	बदलाव (%)
कॉटनऑयलसीडकेक	2636.00	2558.00	-2.96%
ग्वारसीड	5162.00	5059.00	-2.00%
ग्वारगम	10053.00	9871.00	-1.81%
मक्का	2250.00	2211.00	-1.73%
धान	4149.00	4100.00	-1.18%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.03.24	27.03.24	बदलाव (%)
निकल	1480.80	1430.70	-3.38%
नेचुरल गैस मिनी	139.20	135.10	-2.95%
जिंक मिनी	220.55	216.75	-1.72%
एल्युमीनियम मिनी	208.35	207.80	-0.26%
चांदी मिनी	74776.00	74645.00	-0.18%

## साप्ताहिक समीक्षा

सीआरबी सूचकांक ने लगातार तीसरे सप्ताह 330 से ऊपर बढ़त दर्ज की। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त देखी गई। चांदी की कीमतें मामूली बढ़त के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। भारत में सोने का आयात मार्च में पिछले महीने की तुलना में 90% से अधिक कम होकर कोविड महामारी के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड-उच्च कीमतों की वजह से मांग प्रभावित होने के बाद बैंकों ने आयात में कटौती की है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे बंद हुआ लेकिन 104.3 से ऊपर का स्तर बना रहा। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट हुई है। बेस मेटल में, तांबे की कीमतें बढ़त के साथ हुई, जबकि लेड की कीमतों में कुछ साप्ताहिक बढ़त कम हो गई फिर भी 176 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों के समर्थन से एल्युमीनियम की कीमतों में लगातार पांचवें सप्ताह बढ़ोतरी जारी रही, जबकि जिंक की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं। ऊर्जा क्षेत्र में, कच्चे तेल की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ीं और 6800 के स्तर से ऊपर बंद हुईं, जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में एक सीमित दायरे के भीतर मामूली बढ़त दर्ज की गई। तेल की कीमतें बढ़ीं क्योंकि कम आपूर्ति की आशंका, विशेष रूप से कम रूसी उत्पादन के कारण, 2024 की पहली तिमाही में कच्चे तेल की कीमतों को मदद मिली। मार्च की शुरुआत में रूस ने कहा था कि वह अपने उत्पादन में जारी कटौती को बढ़ाएगा, जबकि रूसी ईंधन रिफाइनरियों पर यूक्रेन द्वारा हमलों के बाद देश में ईंधन की आपूर्ति भी कम हो गई है।

कृषि क्षेत्र में, पिछले सप्ताह की बढ़त के बाद मुनाफावसूली के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट हुई। सूरजमुखी तेल वायदा की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि कॉटन कैंडी वायदा में पिछले सप्ताह गिरावट के बाद निचले स्तर पर कुछ खरीददारी दर्ज की गई। भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण भी कीमतें बढ़ीं। घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2023-24 में कुल कपास उत्पादन पिछले वर्ष के 336.60 लाख गांठ के मुकाबले 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। गोदामों में पर्याप्त स्टॉक के कारण कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट हुई। कपास की कीमतों में भी लगातार चौथे हफ्ते गिरावट हुई है। मसाला बाजार में, कारोबार धीमा रहा, हाजिर बाजार में खरीदारी गतिविधि में कमी के बीच जीरा की कीमतें सीमित दायरे में रहीं। लेकिन, भारतीय जीरे की कीमतें मौजूदा दरों पर आकर्षक हो गई हैं जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। कटाई गतिविधियों में प्रगति के कारण हल्दी और धनिया की कीमतें भी सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं। मौसम की स्थिति फसल के लिए अनुकूल दिख रही है जिससे तेलंगाना और महाराष्ट्र में कटाई गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष के 62.5 हजार टन के मुकाबले मार्च-24 में भारत भर की प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 49.7 हजार टन हल्दी पहुंची। मेंथा ऑयल की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	22.03.2024	27.03.2024	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	1,969.00	1,954.10	-0.76%
चना	दिल्ली	5806.55	5747.10	-1.02%
धनिया	कोटा	7859.00	7800.00	-0.75%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	922.70	903.25	-2.11%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,463.90	1,445.00	-1.29%
ग्वारसीड	जोधपुर	5195.95	5097.80	-1.89%
ग्वारगम	जोधपुर	10,167.70	9,946.45	-2.18%
जीरा	ऊझा	25906.70	25906.70	0.00%
सरसों	जयपुर	5451.50	5447.75	-0.07%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	982.50	957.50	-2.54%
सोयाबीन	इंदौर	4688.15	4639.15	-1.05%
हल्दी	निजामाबाद	16527.65	16696.95	1.02%
गेहूं	दिल्ली	2550.00	2550.00	0.00%
काँटन	कड़ी	29162.00	29048.85	-0.39%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2702.35	2674.85	-1.02%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	काँट्रैक्ट	22.03.2024	27.03.2024	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2309.00	2298.50	-0.45%
तांबा	LME	नकद	8866.50	8849.50	-0.19%
लेड	LME	नकद	2036.50	2003.00	-1.64%
निकल	LME	नकद	17242.00	16620.00	-3.61%
जिंक	LME	नकद	2484.00	2437.00	-1.89%
सोना	COMEX	अप्रैल	2160.00	2201.40	1.92%
चांदी	COMEX	मई	24.84	24.88	0.14%
लाइट क्रूड	NYMEX	अप्रैल	80.63	81.35	0.89%
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	1.81	1.95	7.78%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	काँट्रैक्ट	22.03.2024	27.03.2024	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	मई	1,205.50	1,206.50	0.08%
सोया तेल	CBOT	मई	48.21	48.22	0.02%
काँटन	ICE	मई	91.53	90.77	-0.83%
सीपीओ	BMD	मई	4,188.00	4,136.00	-1.24%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	20.03.2024 क्वांटिटी	27.03.2024 क्वांटिटी	अंतर
काँटन	मी.टन	0	0	0
बाजरा	मी.टन	221	221	0
कैस्टर सीड	मी.टन	2474	2207	-267
धनिया	मी.टन	0	198	198
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	63753	65177	1424
ग्वारगम	मी.टन	20458	20507	49
ग्वारसीड	मी.टन	29904	30095	191
जीरा	मी.टन	0	0	0
स्टील	मी.टन	333	220	-113

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	22.03.2024 क्वांटिटी	26.03.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1447.652	1539.037	91
तांबा	मी.टन	1489605	1489605	0
सोना	किग्रा	327	327	0
सोना मिनी	किग्रा	6384	6384	0
सोना गिनी	किग्रा	389600	205100	-184500
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	327266.821	326181.077	-1086
चांदी एम	किग्रा	49552.755	49552.755	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 22.03.2024	स्टॉक की स्थिति 27.03.2024	अंतर
एल्युमीनियम	559600	556525	-3075.00
तांबा	117900	113100	-4800.00
निकल	77454	76836	-618.00
लेड	267750	267850	100.00
जिंक	269375	263550	-5825.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	काट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	23860.00	14.03.24	मंदी	25000.00	-	25110.00	25150.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	17420.00	14.03.24	मंदी	18500.00	-	18190.00	18250.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	5059.00	14.02.24	तेजी	5300.00	4950.00	-	4900.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अप्रैल	6072.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5770.00	-	5750.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	अप्रैल	863.20	06.03.24	तेजी	845.00	830.00	-	825.00
NCDEX	स्टील लांग	अप्रैल	41790.00	27.09.23	मंदी	46300.00	-	42900.00	43000.00
<b>NCDEX</b>	<b>कॉटनऑयलसीडकेक</b>	<b>अप्रैल</b>	<b>2558.00</b>	<b>26.03.24</b>	<b>मंदी</b>	<b>2600.00</b>	<b>-</b>	<b>2675.00</b>	<b>2700.00</b>
MCX	मेंथा ऑयल	अप्रैल	935.80	27.09.23	मंदी	960.00	-	975.00	980.00
MCX	बुलडेक्स	अप्रैल	16871.00	04.03.24	तेजी	16600.00	16530.00	-	16500.00
MCX	चांदी	मई	74662.00	04.03.24	तेजी	72200.00	71250.00	-	71000.00
MCX	सोना	जून	66944.00	04.03.24	तेजी	64000.00	65100.00	-	65000.00
MCX	तांबा	अप्रैल	759.05	06.03.24	तेजी	730.00	735.00	-	730.00
MCX	लेड	अप्रैल	177.10	06.03.24	तेजी	179.00	172.00	-	170.00
MCX	जिंक	अप्रैल	216.75	06.03.24	तेजी	218.00	207.00	-	205.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	207.70	04.03.24	तेजी	202.00	202.00	-	200.00
MCX	कच्चा तेल	अप्रैल	6776.00	13.03.24	तेजी	6500.00	6520.00	-	6500.00
MCX	नेचुरल गैस	अप्रैल	144.40	18.01.24	मंदी	235.00	-	177.50	178.00

\*27/03/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मॉनिंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### एल्युमीनियम (अप्रैल) एमसीएक्स



एल्युमीनियम (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 209.50

निचला स्तर: 195.30

एमसीएक्स में एल्युमीनियम (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 27 मार्च 2024 को 207.70 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 204.75 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 61.63 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

201.20 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 213.50 ₹ के टारगेट के लिए 205.70 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स



कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 6955.00

निचला स्तर: 5952.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 27 मार्च 2024 को 6776.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6682.26 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 61.083 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

6600.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 7150.00 ₹ के टारगेट के लिए 6750.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कैस्टरसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



कैस्टरसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 6160.00

निचला स्तर: 5578.00

एमसीएक्स में कैस्टरसीड (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 27 मार्च 2024 को 6072.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5888.278 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 65.281 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5900.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6350.00 ₹ के टारगेट के लिए 6015.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।





## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

घरेलू आपूर्ति में वृद्धि की उम्मीद से हल्दी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। कटाई गतिविधियों के आगे बढ़ने से आपूर्ति में वृद्धि होगी। मौसम की स्थिति फसल के लिए अनुकूल दिख रही है जिससे तेलंगाना और महाराष्ट्र में कटाई गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष के 62.5 हजार टन के मुकाबले मार्च-24 में भारत भर की प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 49.7 हजार टन हल्दी की आवक हुई है। कम उत्पादन के कारण आवक कम रही क्योंकि वर्ष 2024 में उत्पादन में साल-दर-साल 20% की गिरावट का अनुमान है। निर्यात पूछताछ धूमिल रही है और सुस्त रहने की संभावना है जो कीमतों में बड़ी बढ़त के लिए प्रमुख बाधा है। कटाई गतिविधियों में प्रगति और धीमी निर्यात पूछताछ से बढ़त सीमित हो जाएगी। जनवरी-24 में भारत से हल्दी निर्यात 15% कम होकर 10.49 हजार टन हो गया, जबकि अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष से 3.5% कम होकर 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। निर्यात में गिरावट का कारण गुणवत्तापूर्ण उपज की सीमित उपलब्धता और ऊंची कीमतें हो सकती हैं। हल्दी की कीमतों को 18800 के करीब रेंजिस्टेंस का सामना करने की संभावना है, और 16400 के करीब सपोर्ट रह सकता है।

स्टॉकिस्टों की सक्रिय खरीदारी के बीच बेहतर निर्यात के कारण जीरा वायदा कीमतों में तेजी रही। सीरिया और तुर्की में कम उत्पादन के कारण वैश्विक आपूर्ति कम हो गई है, जिससे हाल के महीनों में भारतीय जीरा निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारतीय जीरे की कीमतें मौजूदा दरों पर आकर्षक हो गई हैं जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। जीरा के निर्यात के मौसम से पता चलता है कि मार्च-अप्रैल में त्योहारों के मद्देनजर मजबूत मांग की संभावनाओं के कारण मार्च-अप्रैल के दौरान निर्यात मांग अधिक रहती है। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ नई फसल की आपूर्ति शुरू हो गई है जिससे बढ़त सीमित हो जाएगी। वर्ष 2024 में भारत में जीरा का उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़ने की उम्मीद है। जीरा की कीमतों के 21500-32000 के बीच कारोबार करने की संभावना है।

मजबूत निर्यात मांग के बीच कमजोर उत्पादन संभावनाओं के कारण धनिया की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। उत्पादन क्षेत्र और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी आने की संभावना है। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान लगभग 83.6 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में साल-दर-साल 215% अधिक है। कम उत्पादन अनुमान के कारण कमजोर आपूर्ति की संभावना के कारण धनिया में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है। त्योहारी खरीदारी बढ़ने से भी कीमतों में मजबूती को समर्थन मिलेगा। लेकिन आने वाले हफ्तों में नई आवक शुरू होने की संभावना है जिससे बढ़त सीमित हो जाएगी। धनिया की कीमतों के 7300-8200 के दायरे में रहने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण कपास की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए कुल कपास उत्पादन पिछले वर्ष के 336.60 लाख गांठ के मुकाबले 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। 27 मार्च को लगभग 64 हजार गांठ की आवक हुई, जबकि वर्ष 2023-24 में अब तक कुल आवक 246 लाख गांठ बताई गई है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतें अधिक रहने की संभावना है क्योंकि आने वाले हफ्तों में आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 65%-68% आवक बाजार में पहुंच चुकी है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 57000-63500 के बीच कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास अप्रैल-24 वायदा की कीमतों के 1500-1580 के स्तर के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों के 2450-2700 के दायरे में रहने की संभावना है।

निर्यात पूछताछ में सुधार के कारण ग्वारसीड वायदा में तेजी की संभावना है। प्रचलित दर पर ग्वारगम की मांग बढ़ी है जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। पेराई मार्जिन में सुधार हुआ है जिससे ग्वारगम की पेराई मांग में वृद्धि होगी। आवक कम है जिससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कीमतों में लगातार गिरावट के कारण हाल के सप्ताहों में आपूर्ति की गति धीमी रही है। लेकिन वर्ष 2023-24 में अब तक कुल आपूर्ति अधिक रही है। लेकिन वर्ष 2023-24 में अब तक कुल आपूर्ति अधिक रही है। अक्टूबर-23-फरवरी-24 के दौरान प्रमुख एपीएमपी मंडियों में ग्वारसीड की आवक 2.10 लाख टन रही है, जो साल-दर-साल 8% अधिक है। वर्ष 2023-24 में अब तक उच्च कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ने आपूर्ति को अधिक बनाए रखा है। वर्ष 2023-24 में ग्वारसीड का कुल उत्पादन साल-दर-साल 11%-13% घटकर 10.7 लाख टन रह गया है। ग्वारगम के बढ़ते निर्यात की रिपोर्ट से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। जनवरी-24 में ग्वारगम का निर्यात सालाना 30% बढ़कर 20.05 हजार टन हो गया। ग्वारसीड की कीमतों को 4700 के आसपास समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि रेंजिस्टेंस 5600 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 9600 के आसपास समर्थन मिलने की संभावना है, जबकि रेंजिस्टेंस 10800 पर देखा जा सकता है।

घटती आपूर्ति और आगामी सीजन के लिए कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण मेंथा तेल की कीमतों में मजबूती के साथ कारोबार होने की संभावना है। मेंथा का रकबा साल-दर-साल कम से कम 10% कम हुआ है, जिससे उत्पादन में साल-दर-साल कम से कम 7%-8% की गिरावट आएगी। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान पिछले वर्ष 2016.7 टन की तुलना में लगभग 1709.2 टन मेंथा तेल का निर्यात किया। मेंथा ऑयल की कीमतों के 900-950 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति में कमी के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी की संभावना है। साथ ही, अरंडीमूल के निर्यात में गिरावट की रिपोर्ट से कीमतों पर दबाव पड़ेगा। भारत ने अप्रैल-23-फरवरी-24 के दौरान पिछले वर्ष के 351.4 हजार टन की तुलना में लगभग 349.6 हजार टन का निर्यात किया। कैस्टर सीड की कीमतों के 5700-6350 के दायरे में रहने की संभावना है।

### सर्पफा

सोने की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त देखी गई क्योंकि निवेशकों ने ब्याज दर में संभावित कटौती के संबंध में फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर की टिप्पणियों पर विचार किया और नीतिगत संकेतों के लिए अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का इंतजार किया। हाल के मुद्रास्फीति दबावों के बावजूद, 2024 में फेड द्वारा दरों में तीन कटौती की उम्मीद के बाद पिछले सप्ताह सोना रिपोर्ट ऊंचाई पर पहुंच गया। गवर्नर वालर ने निराशाजनक मुद्रास्फीति आंकड़ों का हवाला देते हुए अल्पकालिक ब्याज दर लक्ष्य में कटौती में देरी का सुझाव दिया। संभावित दर समायोजन के समय का आकलन करने के लिए निवेशकों का ध्यान आगामी अमेरिकी मुख्य व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीडी) मूल्य सूचकांक रिपोर्ट की ओर गया, जो शुक्रवार को जारी होने वाला है। अनुमानों ने फरवरी में पीसीडी मूल्य सूचकांक में 0.3% की वृद्धि का संकेत दिया है, जिससे 2.8% की वार्षिक गति बनी रह सकती है। इस बीच, सीएम्ई समूह के फेडवॉच टूल के अनुसार, व्यापारियों ने जून में शुरू होने वाली दर में कटौती की 62% संभावना जताई है। कम ब्याज दरों से आम तौर पर सोना रखने की अवसर लागत कम हो जाती है। सोने-चांदी का अनुपात फिलहाल 88.866 पर है, जो तेजी के रुझान का संकेत है। इससे पता चलता है कि आने वाले सत्रों में सोने का प्रदर्शन चांदी से बेहतर रहने की संभावना है। लेकिन, 91 के स्तर के पास एक रेंजिस्टेंस है। महीने के अधिकांश समय सोने की कीमतें सीमित दायरे में रहीं, जिसमें संभावित ब्रेकआउट 2,225 डॉलर प्रति औंस के मौजूदा रेंजिस्टेंस स्तर से ऊपर होने की उम्मीद है, जिसके बाद कीमतें 2,300 डॉलर के स्तर तक जा सकती हैं। कॉमेक्स पर, चांदी की कीमतों के मिले-जुले रुझान के साथ 24.00-26.00 डॉलर के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। आगे, एमसीएक्स पर सोने की कीमतों के 64700-67500 के बीच कारोबार करने की संभावना है और उच्च स्तर से गिरावट हो सकती है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 72900-76000 की व्यापक दायरे के भीतर उतार-चढ़ाव होने की उम्मीद है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

ईआईई की नवीनतम रिपोर्ट में एपीआई की रिपोर्ट की तुलना में अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उम्मीद से कम वृद्धि के संकेत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। ईआईई के अनुसार कच्चे तेल के भंडार में 1.275 मिलियन बैरल की कमी की उम्मीदों के विपरीत 3.165 मिलियन बैरल की वृद्धि दर्ज की गई, जो एपीआई की 9.337 मिलियन बैरल की वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। निवेशकों ने आगामी सप्ताह के लिए निर्धारित ओपेक की संयुक्त निगरानी मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक से पहले आपूर्ति को लेकर चल रही चिंताओं पर भी विचार किया। बाजार की आम सहमति है कि जून में शुरू होने वाली फंड और ईसीबी दोनों की बैठकों में दर में कटौती हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों को रूसी रिफाइनरियों पर हाल ही में यूक्रेनी ड्रॉन हमलों से समर्थन मिला, जिससे कई सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे रूस की ईंधन निर्यात क्षमता सीमित हो गई। लेकिन, समुद्र में कच्चे तेल का परिवहन करने वाले रूसी जहाजों की बड़ी संख्या के कारण इस व्यवधान का अभी भी रूसी ईंधन निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ा है। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को जून के अंत तक बढ़ाने के ओपेक+ के फैसले के बावजूद, ओपेक का फरवरी में कच्चे तेल का उत्पादन 110,000 बैरल/दिन बढ़कर 26.680 मिलियन बैरल/दिन हो गया, इराक और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने कोटा से अधिक उत्पादन किया, जिससे तेल की कीमतों पर मंदी का दबाव बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, चीन में कच्चे तेल की मजबूत मांग ने कीमतों में तेजी के रुझान में योगदान दिया। कुल मिलाकर बाजार में मिले-जुले सेंटिमेंट के साथ कारोबार हुआ। आगे, कच्चे तेल की कीमतों में 6650-6990 के दायरे में उतार-चढ़ाव होने की उम्मीद है, जिसमें दोनों तरफ उतार-चढ़ाव की उम्मीद है। दूसरी ओर, नेचुरल गैस की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई, लेकिन अमेरिका में सामान्य से अधिक तापमान की उम्मीद, जिससे हीटिंग की मांग कम हो सकती है और नेचुरल गैस के भंडार में वृद्धि हो सकती है, के कारण कीमतें दबाव में रही। इस सप्ताह में, गैस की कीमतें 135-154 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



## बेस मेटल

पहले दो महीनों में औद्योगिक कंपनियों के मुनाफे में सुधार के बाद चीन की व्यापक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेतों से बेस मेटल की कीमतें तेजी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। चीन की औद्योगिक कंपनियों ने साल के शुरुआती महीनों में अधिक मुनाफा कमाया, जिससे संकेत मिलता है कि प्रॉपर्टी क्षेत्र में लगातार सुस्ती के बावजूद आर्थिक सुधार जोर पकड़ रहा है। शीर्ष उपभोक्ता चीन में, पर्याप्त पूंजी की कमी ने 2024 की पहली तिमाही में बुनियादी ढांचे और प्रॉपर्टी परियोजनाओं के निर्माण को धीमा कर दिया है, जिससे बेस मेटल की मांग कमजोर हो गई है। इस बीच, चीन के केंद्रीय बैंक ने युआन को बाजार की अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत निर्धारण पर निर्धारित किया, जो चीनी धातु खरीदारों की क्रय शक्ति का समर्थन कर सकता है। तांबे की कीमतें 750-780 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार चीन के शीर्ष तांबा स्मेल्टरों ने 2024 की दूसरी तिमाही में तांबा कंसेन्ट्रेट प्रसंस्करण के ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग शुल्क के लिए मार्गदर्शन मूल्य निर्धारित नहीं करने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि स्मेल्टरों ने रिफाइनड तांबे के उत्पादन में 5-10% की कटौती का भी प्रस्ताव रखा है। जिक की कीमतें 210-226 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एलएमई और एसएचएफई गोदामों में बढ़ते भंडार और स्टील सेक्टर की कमजोर मांग से बाजार पर असर पड़ सकता है। उच्च आपूर्ति के कारण लोड की कीमतें 173-181 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। मैक्वेरी को उम्मीद है कि इस साल वैश्विक लोड बाजार में 76,000 टन और 2025 में 138,000 टन का सरप्लस होगा। चीन के युन्नान प्रांत में उत्पादन में धीमी रिकवरी पर चिंताओं के कारण एल्युमीनियम की कीमतें तेजी के रुझान के साथ 200-215 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। स्टील लॉन्ग (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ 40800-42500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। निर्माण और मैनुफैक्चरिंग में मंदी जैसे कारकों के कारण दुनिया भर में स्टील की मांग कमजोर हो रही है।

## तांबे का भंडार: 5 शीर्ष देश

खपत की मात्रा के मामले में लोहा और एल्युमीनियम के बाद तांबा तीसरा प्रमुख औद्योगिक धातु है। दशकों से, तांबा एक प्रभावी बैरोमीटर और किसी क्षेत्र के आर्थिक स्वास्थ्य के सबसे विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता रहा है। यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञों ने पारंपरिक रूप से तांबे को अर्थव्यवस्था का डॉक्टर कहा है। अब, हरित ऊर्जा में तांबे की भूमिका और शहरीकरण के लिए इसकी आवश्यकता और इसके घटते संसाधन आर्थिक स्थिरता और भविष्य के बारे में वर्तमान चर्चाओं के लिए बहुत प्रासंगिक हो गए हैं।

कॉपर डेवलपमेंट एसोसिएशन का अनुमान है कि वर्तमान में दुनिया भर में ज्ञात तांबे के अयस्क संसाधन लगभग 5.8 ट्रिलियन पाउंड हैं, जिनमें से पूरे इतिहास में केवल 0.7 ट्रिलियन पाउंड या 12 प्रतिशत का ही खनन किया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये बढ़ती हरित अर्थव्यवस्था और बढ़ते शहरों की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि तांबे के नए भंडार की खोज की गति धीमी हो गई है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, तांबे के सबसे बड़े भंडार वाले देश चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं।

### चिली

चिली के पास 2023 तक 190 मिलियन मीट्रिक टन के साथ किसी भी देश की तुलना में तांबे का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। चिली के भंडार खनन की मौजूदा गति के हिसाब से लगभग अगले 100 वर्षों तक तांबे के उत्पादन की गारंटी देते हैं। चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक भी है, जिसने 2023 में खदानों से लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन तांबे का उत्पादन किया था। बीएचपी की एस्कोन्डिडा दुनिया की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक खदान है, और साइट पर आपूर्ति में व्यवधान-उदाहरण के लिए, वेतन वार्ता के कारण - तांबे की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।

### पेरू


पेरू के पास दुनिया के तांबे के भंडार का 120 मिलियन मीट्रिक टन या 12 प्रतिशत हिस्सा है। 2023 में, देश ने 2.6 मिलियन मीट्रिक टन के राष्ट्रीय तांबे के उत्पादन के साथ दूसरे सबसे बड़े उत्पादक (डीआरसी के साथ) के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। पेरू का सबसे बड़ा तांबे का भंडार एंटामिना, टोकंपाला, सेरो वर्डे, क्यूजोन और टिंटया खदानों में पाया जा सकता है। एंटामिना खदान पेरू की सबसे बड़ी तांबे की खदान है।

### ऑस्ट्रेलिया

100 मिलियन टन के साथ ऑस्ट्रेलिया में तांबे का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जो वैश्विक भंडार का लगभग 10 प्रतिशत है। लेकिन, इसका उत्पादन शीर्ष दो देशों की तुलना में बहुत कम है, और 2023 में 810,000 मीट्रिक टन खनन किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार, देश के तांबे के संसाधन बड़े पैमाने पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक बांध तांबा-यूरेनियम-सोने के भंडार और क्वींसलैंड में माउंट ईसा तांबा-लोड-जिक भंडार में केंद्रित हैं।

### कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) ने 2023 तक रूस के साथ जुड़ने के लिए हाल के वर्षों में अपने तांबे के भंडार में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। डीआरसी में एक प्रमुख तांबे की संपत्ति इवानहो माइंस की कामोआ-काकुला परियोजना है, जो एक संयुक्त उद्यम है जिसे कंपनी पार्टनर जिजिन माइनिंग ग्रुप के साथ साझा करती है। जैसे-जैसे अधिक परियोजनाएं विकसित होती हैं, डीआरसी तांबे के उत्पादन में नंबर दो स्थान के लिए पेरू को पछाड़ सकती है। 2023 में अफ्रीकी देश में उत्पादन 2.5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया।



स्रोत: आईसीएसजी

### रूस

रूस के पास 80 मिलियन मीट्रिक टन तांबे का भंडार है, लेकिन 2023 में उत्पादन कम था, जो केवल 910,000 मीट्रिक टन रह गया। रूस में तांबे के सबसे बड़े संचालन में से एक साइबेरिया में उडोकन है, जो वर्तमान में उडोकन कॉपर के स्वामित्व में है, जिसका नाम पहले बाइकाल माइनिंग कंपनी था। कंपनी ने सितंबर 2023 में नए संयंत्र में सफलतापूर्वक कॉपर कंसेन्ट्रेट उत्पादन शुरू किया।

इसलिए, यद्यपि वर्तमान में हम जानते हैं कि तांबा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन यह टिकाऊ खनन प्रथाओं, रीसाइक्लिंग को अधिकतम करने और भविष्य में तांबे के पूरक के लिए सभावित रूप से वैकल्पिक सामग्रियों की खोज के महत्व की ओर संकेत करता है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।